

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ९०] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च १२, १९६९/फाल्गुन २१, १८९०

No. 90] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1969/PHALGUNA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th March 1969

S.O. 1038.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

In Part B of Schedule I to the said Order, the existing entry against item No. 26(i) shall be amended to read as follows:—

“Groundnut Seeds”.

[No. E(C)O, 1968/AM(25).]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

[Issued from file No. 38(14)/67-E.II.]

